

**ADVENTHEALTH**

AdventHealth Bolingbrook; AdventHealth GlenOaks; AdventHealth Hinsdale;  
AdventHealth LaGrange; शिकागो सेवा क्षेत्र में कार्यरत चिकित्सक अभ्यास

**वित्तीय सहायता नीति का सारांश**

ऊपर सूचीबद्ध स्वास्थ्य मंत्रालयों सहित AdventHealth की स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करने वाले व्यक्तियों के प्रति विशेष चिंता के साथ, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा के प्रति वचनबद्धता है और वे इसका सम्मान करते हैं। AdventHealth अपने स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों को संपूर्ण समुदाय के लिए सेवा के रूप में प्रबंधित करने के प्रति भी समान रूप से वचनबद्ध है। इन सिद्धांतों को आगे ले जाते हुए AdventHealth ऐसे कुछ व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिन्हें AdventHealth में आपातकालीन और चिकित्सीय रूप से आवश्यक अन्य देखभाल प्राप्त होती है। यह सारांश AdventHealth की वित्तीय सहायता नीति का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

**कौन योग्य है?**

अगर आप इलिनॉय में रहते हैं, तो शायद आप वित्तीय सहायता पा सकते हैं। वित्तीय सहायता का निर्धारण आम तौर पर संघीय गरीबी के स्तर की तुलना आपकी कुल घरेलू आय से करके किया जाता है।

- यदि आपकी आय संघीय गरीबी स्तर के 250% से कम या इसके बराबर है, तो आपको उन शुल्कों के भाग पर 100% चैरिटी देखभाल राइट-ऑफ मिल सकता है, जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं।
- यदि आपका बीमा नहीं है और आपकी आय संघीय गरीबी स्तर के 250% से ज्यादा है लेकिन संघीय गरीबी स्तर के 600% से ज्यादा नहीं है, तो आपको स्लाइडिंग स्केल पर छूट प्राप्त दरें मिल सकती हैं।
- यदि आपका बीमा है और आपकी आय संघीय गरीबी स्तर के 250% से ज्यादा है लेकिन संघीय गरीबी स्तर के 400% से ज्यादा नहीं है, तो आपको स्लाइडिंग स्केल पर छूट प्राप्त दरें मिल सकती हैं।
- यदि आप पर किसी आपात स्थिति और चिकित्सीय रूप से आवश्यक देखभाल के लिए कोई मेडिकल कर्ज है जो आपकी आय के 20% से अधिक है, तो आप छूट के लिए पात्र हो सकते हैं।

यदि आपकी संपत्ति संघीय गरीबी स्तर आय राशि के 600% से ज्यादा है, तो संभवतः आप वित्तीय सहायता के लिए पात्र ना रहें। मरीज़ जो वित्तीय सहायता के लिए योग्य हैं, उनसे उपयुक्त इलाज के लिए बीमा कवरेज वाले मरीज़ों से आम तौर पर लिए जाने वाले शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

**कौन सी सेवाएँ शामिल हैं?**

वित्तीय सहायता नीति आपातकाल और अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल पर लागू होती है। इन शर्तों को वित्तीय सहायता नीति में परिभाषित किया गया है। अन्य सभी सेवाएँ वित्तीय सहायता नीति में शामिल नहीं हैं।

**मैं कैसे आवेदन कर सकता/सकती हूँ?**

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए, आप आमतौर पर वित्तीय सहायता नीति में दिए अनुसार एक लिखित आवेदन को पूरा करेंगे और साथ में सहायक दस्तावेज़ पेश करेंगे और वित्तीय सहायता नीति आवेदन देंगे।

**मुझे आवेदन के साथ मदद कैसे मिल सकती है?**

वित्तीय सहायता नीति हेतु आवेदन में मदद के लिए आप 844-652-0600 पर कॉल करके, [GLR.CustomerService@AdventHealth.com](mailto:GLR.CustomerService@AdventHealth.com) पर ईमेल भेजकर या निम्न पर लिखकर AdventHealth से संपर्क कर सकते हैं:

AdventHealth PFS  
Attention: Financial Assistance Department  
1000 Remington Blvd., Suite 110

Bolingbrook, IL 60440

### **मैं अधिक जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?**

वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति आवेदन पत्र की प्रतियाँ

<https://www.adventhealth.com/legal/financial-assistance-illinois> और ऊपर सूचीबद्ध स्वास्थ्य मंत्रालयों पर उपलब्ध हैं। वित्तीय सहायता नीति और वित्तीय सहायता नीति आवेदन पत्र की मुफ्त प्रतियाँ डाक द्वारा ऊपर दर्शाए गए पते पर लिखकर भी प्राप्त की जा सकती हैं। वित्तीय सहायता नीति के बारे में अतिरिक्त जानकारी [GLR.CustomerService@AdventHealth.com](mailto:GLR.CustomerService@AdventHealth.com) पर ईमेल भेजकर या 844-652-0600 पर फ़ोन करके भी उपलब्ध है।

### **अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो क्या होगा?**

अगर आप वित्तीय सहायता नीति के तहत वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं हैं, तो आप अन्य प्रकार की सहायता के लिए योग्य हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया 844-652-0600 पर कॉल करके; या ऊपर वर्णन किए अनुसार ईमेल द्वारा या लिखकर AdventHealth से संपर्क करें।

### **वित्तीय सहायता नीति, वित्तीय सहायता नीति आवेदन और निर्देश, और इस सरल भाषा सारांश का अनुवाद निम्न भाषाओं में हमारी वेबसाइट पर और अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध है:**

English; Español (Spanish); Polski (Polish); Tagalog (Filipino); 简体中文 (Simplified Chinese); 漢語 (Traditional Chinese); 한국어 (Korean); Deutsch (German); اُردُو (Urdu); ગુજરાતી (Gujarati); Русский (Russian); Italiano (Italian); हिंदी (Hindi); Français (French); Ελληνικά (Greek); Tiếng Việt (Vietnamese); 日本語 (Japanese); Srpski (Serbian); ภาษาไทย (Thai); Kreyòl (Haitian Creole); босански (Bosnian); ភាសាខ្មែរ (Khmer); Hrvatski (Croatian); فارسی (Farsi); العربية (Arabic)